HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN : L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002

E-mall: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL

**GENERAL MEETING** 

GENERAL MEETING The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, the 30th September, 2021 at 11.00 AM in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 (Collectively called "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM.

In accordance with the relevant circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2021 will be sent shortly to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website Farcipants, The address of documents will also be available of the Company's wester at <u>www.hplindia.com</u> and on the website of the Stock Exchanges (NSE and BSE) and KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin Tech") at <u>https://evoting.kfintech.com</u>

a.) Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their

Members holding shares in physical mode who have not registered updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by clicking on https://iris.kfinitech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at hplcs@hplindia.com or to KFin Technologies Pvt. Ltd. at

b.) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register update their email addresses with the Depository Participants with whom they

Manner or giving mandate for receiving dividend: Members may note that the Board of directors of the company at their meeting held on 28th June, 2021 have recommended a dividend of Rs. 0.15/- per equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the financial year ended 31st March, 2021. The dividend, if declared, will be paid electronically within 30 days through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For those shareholders who have not updated their bank account details. For those shareholders who have not updated their bank account details. For those shareholders are requested to updated their bank account details, dividend warrants will sent out to their registered address. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update KYC with their depositories and with Company's RTA to receive dividend directly into their bank account.

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

INDOKEM LIMITED

Registered Office: Plot No. 410/411, Khatau House, Mogul Lane,

Mahim (West), Mumbai - 400 016

CIN: L31300MH1964PLC013088

Tel No.: 61236767/ 61236711 Email Id: ikisecretarial@gmail.com

NOTICE OF 55<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

**VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEANS** 

In compliance with provisions of the Companies Act 2013 ('Act') and Rules

framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with Circulars of Ministry of

Corporate Affairs ('MCA') dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and

January 13, 2021 (collectively 'MCA Circulars'), and Securities and Exchange

Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January

15, 2021 ('SEBI Circulars'), the 55<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of Member

of Indokem Limited ('Company') is being convened through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM').

The 55th AGM of the Company shall be held on Thursday, September 30, 202

at 3:00 FM., through VC/OAVM. The Members of the Company shall be able to attend the AGM through VC/OAVM only. The Members are requested to carefully

read all instructions related to attending the AGM through VC and casting thei

In compliance with the provisions of the Act, the Listing Regulations read with MCA circulars and SEBI Circulars, the Annual Report of the Company for the

Financial Year (FY) 2020-21 ('Annual Report') including the Notice of 55th AGM

of the Company, will be sent to the Members whose email ids are registere

with the Company / Depository Participants. The Annual Report alongwith Notic

of 55th AGM of the Company, will available on the website of the Company a

www.indokem.co.in and will also be available on the websites of BSE Limited a

The Members of the Company who are holding Shares in dematerialised mode

physical mode or who have not registered their email id with the Company, cal

cast their vote electronically on the business set as forth in the notice of the

AGM either remotely (during remote e-voting period) or during AGM as per the

The procedure for registration of email id to receive future documents through

www.bseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

manner provided in the Notice to members.

vote electronically, as mentioned in the notes to the Notice of the AGM.

By order of the Board For HPL Electric & Power Limited

**Company Secretary & Compl** 

Vivek Kuma

M. No. A18491

Manner of registering / updating email addresses:

anner of giving mandate for receiving dividend:

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Notice

Place: Nolda Date: 03.09.2021

Notice is hereby given that:

einward.ris@kfintech.com.

maintain their demat accounts.

Ph.: +91-11-23234411, Fax: +91-11-2323263



#### मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

प्रथम तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल, दूरभाष : 2673141, 2673142 (For online help)

### ई-निविदा सूचना क्रमांक 11-ए/2021-22

C.N.	Tak	Norman of Brandwat	EMD/DC	I and Data of Bid Submission
1000		द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सिस्टम के माध्यम से निम्नलि ह निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-	खेत उत्पादी हेतु वापि	क दर अनुवंध आधार पर दिनांक को

S.No.	Tender No.	Name of Product	EMD/PG	Last Date of Bid Submission
1.	21010-A (R)	Phenyl	50,000/-	27.09.2021
2.	21053-A	Pu Foam Mattresses for Fowler bed, Semi Fowler bed, Petient bed	1,00,000/-	27.09.2021
3.	21054-A	Rubbrized Coir Mattress and Pillow	5,00,000/-	28.09.2021
4.	21055-A	Self Supported wireless Tower 20, 25, 30 and 45 Meters	50,000/-	28.09.2021

नोट :- निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता, पूर्ण निविदा दस्तावेज, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा शर्तें आदि की जानकारी mptendering पोर्टल https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है | निविदा में भाग लेने के लिए उक्त पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है | म.प्र. माध्यम/101856/2021 प्रबंध संचालक



VARDHMAN TEXTILES LIMITED Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road,

Ludhiana- 141 010 (Puniab), India Phones: 0161-2228943-48, Fax: 0161-2601048 PAN: AABCM4692E; CIN:L17111PB1973PLC003345 E-mail: secretarial.lud@vardhman.com: Website: www.vardhi

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE, E-VOTING DETAILS AND DIVIDEND

Notice is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Vardhman Textiles Limited is scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and SEB Circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Participation of Members through VC / OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 18th September, 2021 to Tuesday, 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for th financial year 2020-21, if declared by Members at the AGM.

In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2020-21, have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depositon Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vardhman.com. and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively Notice of AGM is also available on the website of CDSL a www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and relevant circulars, the Company is pleased to provide the facility to Members, to exercise their right to vote, by electronic means on all the resolutions as set out in the Notice of AGM, either through remote e Voting or e-Voting during AGM.

#### All the Members are informed that:

- The remote e-Voting period shall commence from Saturday, 25th September, 2021 from 9:00 a.m. and shall end on Monday, 27th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-Voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- i. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Tuesday, 21st September, 2021;
- i. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as o the cut-off date i.e. Tuesday, 21st September, 2021, may cast their votes by following the instructions and process of e-Voting as provided in the Notice of AGM.

. Members may note that:

- a) The manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company;
- b) Members holding shares in physical mode and who have not recistered/ updated their email address with the Company are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at secretarial.lud@vardhman.com or to RTA at rta@alankit.com;



No.88. Mount Road, Guindy, Chennal-600032 Website: www.sicagen.com / E-mail: companysecretary@sicagen.com Ph: 044 4075 4075

#### PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

It is hereby informed that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Tuesday, 26th September 2021 at 04:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses set out in the Notice of 17th AGM.

The Notice of the 17th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with MCA and SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by shareholders holding shares in dematerialized mode / physical mode and by shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the Video Conferencing (VC) shall be counted for the purpose o reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice will also be made available on the website of the Company viz, www.sicagen.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing Remote e-voting services) at www.evotingindia.com

Members holding shares in physical form and / or who have not registered their email addresses with the Company / Depository can obtain soft copies of the Notice of the 17th AGM, Annual Report and login details for joining the AGM through VC including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to cameo@cameoindia.com

- a) signed request letter mentioning your name, folio, complete address, e-mail address to be registered.
- b) copy of the share certificate front and back,
- c) self-attested copy of PAN: and

d) self-attested copy of Driving Licence / Passport / Bank Statement / AADHAR, supporting the registered address of the Membr

Members holding shares in physical form and who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank mandate"), can register their Electronic Bank mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending the following details documents (in addition to the documents mentioned above) by e-mail to cameo@cameoindia.com

- a) Name and branch of the Bank in which dividend is to be paid and bank account type.
- b) Bank account number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions.
- c) 11 digit IFSC code; and
- d) Self-attested scanned copies of cancelled cheque leaf bearing the name of the member or First holder, in case shares are held jointly.
- Members holding shares in demat form are requested to update their e-mail address with their Depository participant(s)
- The above information is being issued for the information and benefit of all the members o the Company and is in compliance with the MCA and SEBI Circulars as stated above

Place: Chennal Date: 03.09.2021	By Order of the Board <b>R Chandrasekar</b> Whole Time Director	Place: Faridabad Date : 3 <sup>#</sup> September, 2021
------------------------------------	---	---

# WABCO INDIA LIMITED

CIN : L34103TN20D4PLC054667 Registered Office : Plot No.3 (SP), III Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600 058. Phone: 044-4224 2000, Fax: 044-4224 2009. Email: cvcs.info.india@zt.com; Website : www.wabcoindia.c

NOTICE OF 17<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM ) of the members of the Company will be held on Friday, 24th September, 2021 at 14.00 hrs. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circulars issued in April and May 2020 (Circulars), without the physical presence of the Members to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 28th July 2021

## OSBI

IFRS CELL, FR & T DEPARTMENT CORPORATE CENTRE, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021 **REQUEST FOR PROPOSAL** State Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for appointment of consultant for Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCoFR), Indian Accounting Standards (Ind AS) and IGAAP Accounts related matters (RFP No. CC/FINANCE/FRT/IFRS/2021-22/01). Kindly visit Bank's website <u>https://bank.sbi/</u>. Check "Procurement news" section for detailed RFP document. For future announcements, if any, in this regard, please keep referring to the website Place: Mumbai Sd/-

Date: 04.09.2021 Deputy General Manager & Project Director (IFRS)

# telbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

CIN : L29199HR1956PLC033107 Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003 Tel No.: 0129-2251482, E-mail: seema\_narang@talbros.com Website: www.talbros.com

#### NOTICE OF 64<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 64" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at 10:30 A.M. (IST) on Monday, 27<sup>th</sup> September, 2021 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as mentioned in the Notice for convening the 64" AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 . No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ssued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'). The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company i.e. 14/1, Delh Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, Haryana -121003.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 64" AGM and the Annua Report for the financial year 2020-21 have been sent only in electronic mode on 2<sup>rd</sup> September, 2021 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

The Notice of AGM and Annual Report are also available and can be downloaded from Company's website www.talbros.com, websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also from the website of National Securities Depository Limited (NSDL) a https://www.evoting.nsdl.com.

#### Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

The remote e-voting facility shall commence at 9.00 A.M. (IST) on Friday. 24th September, 2021 till 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 26th September, 2021

- The remote e-voting facility will be disabled thereafter. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2021, may
- obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in of seema narang@talbros.com.
- Members who have exercised their right to vote through remote e-voting facility may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote thereat
- The detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM have been given in the Notice of AGM

#### Manner of registration of e-mail address:

Members who have not registered their e-mail ids with the Company/Depositories are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to rajeev.kr@kfintech.com or seema narang@talbros.com.

#### Manner of Joining the AGM:

A facility to join the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to refer to the AGM notice for detailed procedure for login during the AGM.

case of any query/grievance regarding e-voting or technical assistance for participating in the AGM via VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 1800 1020 990 and 1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Soni Singh, Asst. Manager National Securities Depository Limited at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in.

#### **Book Closure & Payment of Dividend**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 20th September, 2021 to 27" September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 64" AGM and to determine itlement of dividend on equity shares, if declared at the AGM.

For Talbros Automotive Components Limited

	Sd/-	
5.	Seema Narang	
	Company Secretary	ber, 2021

a. The Members holding shares in dematerialised mode are requested to contact their Depository Participant (\*DP\*) for registration of their email id

- Members holding shares in physical form may register their email id with Company's Registrar and Share Transfer Agent – M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. at C -101, 207 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083 (Contact 022 - 49186270) (Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in)
- Members who need assistance before or during the AGM for joining the AGM through VC or for electronic voting, can contact NSDL on: 1800224430 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Indokem Limited Sd/-

- lembers holding shares in dematerialized mode who have no registered/updated their email address with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email addresse with the relevant Depository Participant;
- d) the voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date;
- e) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- f) a person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting;
- g) The result of the resolutions passed at the AGM will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM.
- . Manner for registering mandate for receiving dividend:
- a) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their Bank Account details with the relevant Depository Participant.
- b) Members holding shares in physical mode are requested to register/update their Bank Account details by submitting scanned copy of a covering letter, duly signed by the first shareholder, along with a cancelled cheque leaf with your name and bank account detail and a copy of your PAN card, duly self-attested, with RTA at rta@alankit.com. In case the cancelled cheque leaf does not bear your name, please attach a copy of the bank pass-book statement duly self-attested.
- vi. In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 (the Act') as amended from time to time, dividend declared and paid by a company is taxable in the hands of shareholders and the Company required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the shareholders at the applicable rates. We shall, therefore, be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said Dividend. A brief communique summarizing the applicable TDS provisions, as per the Income Tax Act, 1961, for resident and nonresident shareholder categories together with documentation requirements from members in this regard can be viewed at web link: https://www.vardhman.com/user\_files/investor/VTXL\_Shareholder 20Intimation%20(TDS)%20-%202021-22.pdf

For any queries you may contact the following:-

Contact Person : Mr. Sanjay Gupta

Designation : Company Secretary

Address : Registered Office, Vardhman Premises, Chandigarh Road Ludhiana-141010, Punjab

E-mail:secretarial.lud@vardhman.com

Phone No.: 0161-2228943-48

By order of the Board of Directors

	Sd
Place: Ludhiana	(Sanjay Gupta
Date : 04.09.2021	Company Secreta

In compliance with the circulars, the Notice of 17th AGM and Annual Report have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s) these documents are also available on the website of the Company viz., www.wabcoindia.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (agency for providing the Remote e-voting facility/ e-voting at the AGM) i.e. www.evoting.nsdl.com. The Company has completed dispatch of notice of AGM and Annual Report through e-mails.

Those members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered with the Company, may register their e-mail address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning their name, folio number, complete address, e-mail ids to be registered, scanned copy of the share certificate (front and back), self attested scanned copy of PAN and self-attested scanned copy of Driving Licence/Passport/Bank Statement/Aadhar, supporting the registered address of the Member by e-mail to srirams@integratedindia.in for obtaining copy of the annual report and Notice of AGM. Members holding shares in demat form can update their e-mail id with their Depository Participant(s).

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 17th September 2021 may cast their vote electronically on each items of the business as set forth in the Notice of 17<sup>th</sup> AGM through the electronic voting system on NSDL (remote e-voting) or e-voting at the AGM.

All the members are informed that:

Chennai

2<sup>nd</sup> September 2021

- The ordinary and special businesses as set out in the Notice of AGM shall be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.
- The remote e-voting shall commence at 9.00 hrs. (IST) on Monday, the 20th September 2021. 2.
- 3. The remote e-voting shall end at 17.00 hrs. (IST) on Thursday, the 23th September 2021.
- Remote e-voting shall not be allowed beyond 17.00 hrs (IST on Thursday, 23rd September 2021.
- The remote e-voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned above. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 17<sup>h</sup> September 2021.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or to Mr. S Sriram, General Manager, M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited, Il Floor, "Kences Towers", No.1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T.Nagar, Chennai - 600 017, email: srirams@integratedindia.in. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then such member can use his / her existing User ID and password for casting his / her vote.
- The facility for e-voting will also be made available during the AGM and the members attending the meeting through VC facility, who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote through the e-voting system at the AGM.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be 9 entitled to cast their vote again
- 10. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- 11. The Company has appointed Mr. K Sriram, Practising Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize both the remote e-voting process and e-voting at the 17<sup>th</sup> AGM in a fair and transparent manner.
- 12. In case of any quires, the member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www-evoting.nsdl.com or call on toll free no.1800-222-990. You may also send queries / grievances relating to remote e-voting to Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.co.in / 022-24994360/+91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager - NSDL at sager.ghosalkar@nsdl.co.in/022-24994553/+91 9326781467 or Mr. S Sriram, General Manager, Integrated Registry Management Services Private Limited, email: srirams@integratedindia.in or Mr. MC Gokul, Company Secretary, e-mail cvcs info india@zf.com
- 13. The Company had also published a communication on 28\* August 2021 to facilitate updation of e-mail ids by members who have not already registered the same
- 14. Please keep your updated e-mail id registered with the Company/your Depository Participant to receive timely communication

For ZF GROUP - WABCO INDIA LIMITED

M C Gokul

Company Secretary

Date: September 4, 2021

email:

**Company Secretary** 

# VODAFONE IDEA LIMITED

CIN: L32100GJ1996PLC030976 Registered Office: Suman Tower, Plot No. 18, Sector-11, Gandhinagar - 382 011, Gujarat Email: shs@vodafoneidea.com Website: www.vodafoneidea.com Tel: +91-79-66714000 Fax: +91-79-23232251

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)/BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Vodatone Idea Limited ('the Company') will be held on Wednesday, the 29th day of September, 2021 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and Rules made thereunder read with Circular(s) dated 8th April 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with SEBI Circular(s) dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and 15<sup>th</sup> January, 2021, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above circulars, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to those members electronically whose email ids are registered with the Depository Participant(s) / the Company.

The Notice of 26th Annual General Meeting and the Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be available on the Company's website www.vodafoneidea.com, websites of the Stock Exchanges I.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') https://www.evoting.nsdl.com. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate remote e-voting and e-voting during the AGM.

#### Manner of registering / updating email addresses to receive the Notice of AGM alongwith Annual Report

- Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email ID with the Company are requested to register / update their email ID with Bigshare Services Pvt. Ltd. by sending requests at investor@bigshareonline.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any other document (eg. Driving License, Passport, Aadhar Card etc.) in support of address of the members or by logging onto https://www.bigshareonline.com/investorLogin.aspx.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email ids with their respective Depository Participant(s).

#### Joining the AGM through VC / OAVM

- Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the resolutions as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting system. Further, members will also have facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM.
- The log-in credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes, as provided in the Notice.

Members are requested to go through the notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting and e-voting during the AGM and attending the AGM through VC / OAVM.

For Vodatone Idea Limi	ted
------------------------	-----

Place : Mumbai Dated : September 3, 2021

Sd/-Pankai Kapdeo **Company Secretary** 

#### talbr@= टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोर्नेटस लिमिटेड सीआईएनः L29199HR1956PLC033107

पंजीकृत कार्यालयः 14/1 विल्ली मथुरा रोड, पो.ऑ. अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 फोन नॅ.: 0129-2251482, ई—मेल: seema\_narang@talbros.com, वेबसाइट: www.talbros.com

### 64वीं वार्षिक आम बैठक

रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोज़र की सूचना रतद्ववारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की **64वीं वार्षिक आम बैठक** (एजीएम), के आयोजन हेतु सूचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन के लिए सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10.30 बजे (IST), कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020, नंबर 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा अन्य लागू सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर रोबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 विनाकित 12 मई, 2020 और सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15

जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थोत 14 / 1, दिल्ली मधुरा रोड, पी.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 बैठक का स्थान माना जाएगा।

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, 64वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 2 सितम्बर, 2021 को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम र उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनके ई–मेल पते कम्पनी ⁄ डिपॉजिटरी प्रतिगागी(यों) व साथ पंजीकत हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.tabros.com बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट्स www.bseindia.com तथा www.nseindia.com कमानुसार पर भी उपलब्ध है तथा डाउनलोख की जा सकती हैं तथा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

#### रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग हेतु अनुदेश :

- । रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा शुक्रवार 24 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 09.00 बजे (IST) आरंभ होगी तथा रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग सुविधा निषेध कर दी जाएगी।
- कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 20 सितम्बर, 2021 को शेयरधारक है, वह व्यक्ति evoting@nsdl.co.in आथवा seema narang@talbros.com पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- . सदस्य. जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, एजीएम ग उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको उसमें वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
- एजीएम की सूचना में रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं

#### ई—मेल पते के पंजीकरण की विधि :

जिन सदस्यों ने अपनी ई—मेल आईडी ज़ कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं करवाई हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में उसका पंजीकरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध rajeev.kr@kfintech.com अथवा seema narang@talbros.com को लिखकर करवा लें। एजीएम से जुड़ने की विधि :

### रनएसडीएल के ई–वोटिंग पोर्टल<u>www.evoting.nsdl.com</u> के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के ारिये एजीएम से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के दौरान लॉगइन हेतु विस्तृत प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना देखें।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी संटेह / शिकायत की स्थिति में अथवा वीसी / ओण्वीण्म के जरिये एजीएम में भाग लेने हेतू तकनीकी सहायता के लिए, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com व 'डाउनलोड सैक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशचन्स (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoling@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड से नामित ई—मेल आईडी — <u>evoling@nsdl.co.in</u> अथवा SoniS@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

#### बक क्लोजर एवं लाभांश का भगतान

कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 91 के अनसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 20 सितम्बर, 2021 से 27 सितम्बर, 2021 तक (दोनों तिथियों सहित) 64वीं एजीएम तथा इक्विटी शेयर्स पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड े हस्ता /-(सीमा नारंग) स्थान ः फरीदाबाद दिनांक : 3 सितम्बर, 2021 कम्पनी सचिव



सिक्योरिटाईजेशन एंड रि	रुन्स्ट्रवशन ऑफ फायनांशियल असेटस प (कानून) की धारा 13(2) वे	इंटरेस्ट एक्ट, 2002
6 / X2	0.0.10(3) 0	 बकामा माणि (ज. )

कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण	एन.पी.ए की तारीख	बकाया सारा (रू.)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
कर्ज खाता क्र. HHLLAJ00407871 1. हरीश अधिकारी 2. तारा देवी 3. जी एस अधिकारी सन /ऑफ श्री. उम्मेद सिंह अधीनारी	फ्लैट नंबर एस 1, वूसरी मंजिल, फ्रंट साइड प्लॉट नंबर 4/ 103, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201011	31.03.2021	रू. 28,13,332.08/– (रुपए अद्वाईस लाख तेरह हजार तीन सो बत्तीस और आठ पैसे मात्र) 30.04.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उघार लेने वाले (लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्पुगतान में लगातार चूक होने के कारण उघार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंम सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उघार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

जपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्दवारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 अथुक का घुटिगत एसत हुए कपना (रहबार) अभर ालख नाम वाल प्रधार वन वाल( ला) का आवना करता है कि, व इस सूचना क प्रकाशत होन का प्रत दिन के मौतर अदातन व्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुमतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उत्ति खित सेखर रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी गान होगी।

कृपया कृपया च्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए. सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरवित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।

सरफेसी अधिनियमन की उपघारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।


स्थानः बॅंगलुरु ग्रामीण/नई दिली/वैशाली

अनु. क्र.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

त्थानः नोएडा

homefirst



कि ऊपर लिखे नाम वाला उघार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस वर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्मुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंघ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वरारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अध्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का घुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पत्र होगी।

कुपया कपरा स्थान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जवार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रमारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

ई—मेल आईडी: 10

	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लि
/चंडीगढ	प्राधिकृत अधिका

सीआईएन: U65990MH2010PTC240703, वेबसाइट: homefirstindia.com, फोन नं.: 180030008425

होम फस्टे फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड



माँग सूचना

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 शाखा कार्याल : 245-246, दूसरी मंजिल ओम करम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर जयपुर 302021, राजस्थान, वेबसाइट : http://www.shriramcity.in

जैसा कि, यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है. परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों से सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए यहां नीचे उल्लिखित सम्बद्ध तिथियों पर मांग सूचना जारी की।

उन्हें उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयी सूचनाएं अनसर्व्ड वापस कर दी गर्यी और इस प्रकार उन्हें एतद्वारा इसके विषय में सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड सोआईएक:L74899DL1993PLC051841         पंत्रीकृत कार्यालय: 352, अग्रवाल प्लाज, प्लॉट नं. 8, कॉडली, नई दिल्ली-110096 कार्यालय कॉयरिट कार्यालय: एफसी-23, फिल्म सिटी, सेक्टर-16 ए, नोएडा-201301, (उ.प्र.)         फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401         खेव: www.bagnetwork/24.in मेल : info@bagnetwork.in         28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश थतद्वारा सुचना दी जाती है कि बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिक	कर्जदार( रों)/सह-कर्जदार( रों) के नाम ऋण खाता सं. JODP2TF1510210002 मैसर्स नेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर ( प्रोप. श्री श्याम लाल पंवार), निकट नरसिंह जी का प्याऊ, मगरा पुंजाला सर्वितल, जोधपुर	बकाया राशि रु. 1,26,40,078/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार अठहत्तर मात्र) 18-08- 2021 तक	44,00,000/- (रुपये चौवालीस	प्रतिभूत आस्तियों का सम्पत्ति पता भूमि/प्लॉट/प्लॉट नं. सी-276, कीर्ति नगर योजना, सेक्टर-सी, जोधपुर (राज.) का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग गज. जोधपर र स्थित. सीमा विवरण :	5.	मधु प्रजापत जय नारायण, कांतिश्री, देवेन्द्र कुमार, अनुज कुमार जाटव	जयपुर, जयपुर राजस्थान— प्लॉट नं. बी—29, अशोक वि जयपुर राजस्थान—302029	302027 हार की स्कीम में, गोनेर रोड जयपुर,	ন্থ, 9,02,675	
फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401 वेब: www.bagnetwork24.in मेल : info@bagnetwork.in 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश	JODP2TF1510210002 मैसर्स नेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर (प्रोप. श्री श्याम लाल पंवार), निकट नरसिंह जी का ष्याऊ, मगरा पुंजाला सर्किल, जोधपुर	(रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार अठहत्तर मात्र)	44,00,000/- (रुपये चौवालीस	नगर योजना, सेक्टर-सी, जोधपुर (राज.) का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग	5.	कांतिश्री, देवेन्द्र कुमार,		हार का स्काम म, गानर राख जयपुर,	ন্থ, 9,02,675	
फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401 वेब: www.bagnetwork24.in मेल : info@bagnetwork.in 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश	मैसर्स नेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर (प्रोप. श्री श्याम लाल पंवार), निकट नरसिंह जी का ष्याऊ, मगरा पुंजाला सर्किल, जोधपुर	छब्बीस लाख चालीस हजार अठहत्तर मात्र)	(रुपये चौवालीस	(राज.) का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग			जयपुर राजस्थान–302029			
फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401 वेब: www.bagnetwork24.in मेल : info@bagnetwork.in 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश	श्याम लाल पंवार), निकट नरसिंह जी का प्याऊ, मगरा पुंजाला सर्किल, जोधपुर	हजार अठहत्तर मात्र)				अनुज कुमार जाटव				
फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401 वेब: www.bagnetwork24.in मेल : info@bagnetwork.in 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश	श्याम लाल पंवार), निकट नरसिंह जी का प्याऊ, मगरा पुंजाला सर्किल, जोधपुर	(1976년) 2011년 (CANED CONSTRUCTION - 1978년) 1978년	(14 417)			~ ~				
फोन: 91 120 4602424, फैक्स नं.: 91 120 3911 401 वेब: www.bagnetwork24.in मेल : info@bagnetwork.in 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश	ष्याऊ, मगरा पुंजाला सर्किल, जोधपुर			गर्ज, जावपुर र स्थित, सामा विवरण : पूर्व : प्लॉट नं. 277	6.	आशुतोष पांडे,	पलैट नं. 533, ब्लॉक–एच,	घर आंगन, 5वाँ तल, निकट टर्मीनल	হ, 2,46,207	
वेबः <u>www.bagnetwork24.in</u> मेल : <u>info@bagnetwork.in</u> 28वॉ वार्षिक साधारण सभा की सूचना, ई-वोटिंग एवं बही समापन का संदेश		फोरक्लोजर राशि के	अनुसार	पश्चिमः प्लॉटनं. २७७	<b>.</b>	रिंपल पांडे	मार्केट, सांगानेर, जयपुर रा	जस्थान—302029		
	342001	अनुसार तथा नियम एवं		उत्तर: रोड़	आप	यको उपरोक्त राशि को व्या	ज व लागत सहित दस	सूचना प्रकाशन से 60 दिनों की अ	विधि के अंदर हो	म फर्स्ट
एवं बही समापन का संदेश		शतौं के अनुसार भावी		दक्षिण ः प्लॉट नं. 324	फाइ	नेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	को भगतान करने के लि	ए कहा जाता है, अन्यथा कर्जदरों, बंध	ककर्ताओं और जम	मानतियों
	श्री श्याम लाल पंचार पुत्र श्री किरता राम	ब्याज एवं प्रभार						भी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उ		
the second	गहलोतों का बास, भाटियों की गली, नगरा							गावश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधि		
साधारण सभा ("एजीएम") का आयोजन सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 03.30 बजे	पुंजाला, जोधपुर 342001				फाइ	इनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	के पास (1) प्रत्याभूत परि	रेसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पह	, एसाइमेंट या बि	क्री द्वारा
(आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्यूअल साधनों ("ओएवीएम") के माघ्यम से किया जाएगा जो कि जनरल सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नं. 17/2020	श्री राधेश्याम पंवार पुत्र मदन लाल, प्लॉट नं.							ो प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा ले		
दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नं. 20/2020 दिनांक, 5 मई 2020 और सर्कुलर नं. 02/2021	सी-276, कीर्तिनगर योजना, सेक्टर-सी,							बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सा		
दिनांक 13 जनवरी, 2021 (समग्र रूप से "एमसीए सर्कुलर" के रूप में संदर्षित) के अनुपालन में है	जोधपुर 342001							इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रत्याभूत परिसंपा		
जिसमें चीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा के संचालन की प्रक्रियाओं एवं विधि							निहित होंगे जो आपके	द्वारा हस्तांतरण करने पर हस्तांतरित	प्रत्याभूत परिसंपति	तयों पर
निर्धारित है। साथ ही भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी इसके सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनंक 12 मई, 2020 एवं सेबी/एचओ/	श्रीमती शारदा देवी पत्नी मदन लाल, प्लॉट				0.001007	हेत होते।	~ ~ ~ ~			~ ~
सीएफडी/ सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर") ने	नं. सी-276, कीर्ति नगर योजना, सेक्टर-सी,							गर आप बिक्री, पट्टे या अन्य किसी त म फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटे		
भी 28वीं एजीएम के संचालन के लिए सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के लेनदेन हेतु कुछ रियायत	जोधपुर 342001							डेया लिमिटेड की सहमति के हस्तांतरि		
प्रदान की है। उपर्युक्त एमसीए सर्कुलरों और सेबी सर्कुलरों के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए	एनपीए तिथि : 03-अगस्त-2016				-	c.	। करत काइ गरा करने हा झुल	12 13		
28वीं एजीएम सचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतिलिपियाँ 2 सितम्बर, 2021 को केवल उन	माँग सूचना की तिथि : 21-08-2021				1.000	नः जयपुर ांकः 04.09.2021			स्ताक्षरितः प्राधिकृतः इनेंस कंपनी इंडिया	28390330363638
सभी सदस्यों के पास भेजी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी	ऋण खाता सं.	<b></b> . 27,61,879/-	रु.	भूमि/प्लॉट का सम्पूर्ण भाग क्लॉथ	14.1	142 04.09.2021		हान फरट फ	।इनल कपना <b>इ</b> ।ख्या	ालामटख
की वेबसाइट www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और <u>www.nseindia.com</u> और साथ	JODP2TF1411100001	(रुपये सताईस लाख		मार्केट के आगे, निकट गलियों की						
एक्सचंज आफ इंडिया लिमिटेड की वर्क्साइट www.bseindia.com आर <u>www.nseindia.com</u> आर साथ ही एनएसडीएल की बेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।		इकसठ हजार आठ सौ		पोल, राखी की हवेली, सिटी जोधपुर						
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बने प्रयोज्य नियमों तथा सेबी	मैसर्स पार्वती डिस्ट्रीब्यूटर्स (साझेदारी फर्म)	उन्यासी मात्र) 18-08-		(राज.), माप 17.55 वर्ग मीटर, जोधपुर में स्थित।	G	FINSERV		जन्मेंग निमिनेन		
(सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 42 के तहत संशोधन	52 सी. बछराज का बाग, 11वां पाल रोड, जोधपुर 342001	2021 तक फोरक्लोजर राशि के अनुसार तथा	अनुबन्ध के अनुसार	जाधपुर म स्थित। सीमा विवरण :		FINSERV	् बृजीूज प्	ารุ่าหุ่เตเศรุ่ว		A
के साथ, उक्त एजीएम के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर अंतरण वही मंगलवार, 21 सितम्बर 2021 से सोमवार. 27 सितम्बर 2021 तक (दोनों दिन समेत) बंद रहेंगे।	41431 242001	राशि क अनुसार तथा नियम एवं शर्तों के	July	सामा विवरणः पर्वः श्रीमती कमला (धनराज) की		ानगामत कायालयः चाथा मरि 020—30405060 फ्रैक्स नं 0	जल, फिनसच कापोरेट कायो 120—30405030 आखा कार्या	लय, आफ पुण—अहमदनगर रोड, विमऊ नग लय: ऑफ न 1052-10वी मंजिल अगराज	ार, पुण—411014 टेव मेटो हाइटस, प्लॉट –	ता <b>न</b> . -ई5
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013	श्री दीपांशु अग्रवाल पुत्र मोहन सिंघल, 20-	अनुसार भावी ब्याज एवं		दुकान	1	320 00100000, 1/111	नेताजी सुभाष प्लेस,	<b>गइनेंस लिमिडेट</b> लय, ऑफ पुणे–अहमदनगर रोड, विमऊ नग लय: ऑफ न. 1062, 10वी मंजिल, अग्रवाल पातपुरुप, नई दिल्ली–110034	A CINENT VIC	40,
की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार तथा सेबी	21, नरपत नगर, निकट अमर नगर, पाल	प्रभार		पश्चिमः पुष्प कंवर की दुकान		वित	त्तीय परिसंपत्ति प्रतिमृतिकरण	ग व विनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि	नियम	
(सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) का इस्तेमाल करके 28वीं एजीएम	रोड, जोधपुर 342001	04-0101		उत्तरः चतुर्भुज का मकान				रा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना	212	0
को एनएसडाएल द्वारी प्रदेत्त इलक्ट्रानक वाटिंग सिस्टम (इ-वाटिंग) को इस्तमाल करक 20वा एजाएम सूचना में निर्धारित अनुसार सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। कट ऑफ				दक्षिण : सड़क	मैस	नसे बजाज फाइनेंस लिमिटेव	ड के अधोहस्ताक्षरी मौजूव	ा प्राधिकृत अधिकारी ने, एतद्द्वारा ऋ करने अर्थात् बजाज फाइनेंस लिमिटेड	णी(यो) / सह-ॠण	णी/(यो)
तिथि अर्थात सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके धारित शेयरों	श्रीमती पार्वती सिंघल पत्नी मोहन सिंघल				क। पर	ानम्नालाखत सूचना दा ह होम ऋण(ओं) / ऋण(ओं) व	जा अपना दयता का पूरा के लिए ब्याज और उसपर	करन अर्थात् बजाज फाइनस ।लामटड व्यय अन्य शल्कों के साथ मल के पनभ	द्वारा उनका आग्र गतान में असफल र	म समात्त रहे हैं और
के अनुपात में सदस्यों को बोटिंग अधिकार प्राप्त होगा।	20-21, नरपत नगर, निकट अमर नगर, पाल				परि	रेणामस्वरूप ऋण(ओं) नीचे	वर्णित तिथियों पर नॉन प	व्यय अन्य शुल्कों के साथ मूल के पुनमु रफार्मिंग एस्सेट्स (एनपीए) बन चुका निर्माण और प्रतिभूति हित् प्रवर्तन अधि	है। तदनुसार, उन	के अंतिम
रिगोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान वोटिंग के लिए एवं एनएसडीएल के माच्यम से वीसी/ओएवीएम के वरिये एजीएम में उपस्थित होने के लिए बिस्तुत प्रक्रिया एजीएम सूचना में दी गई है। सदस्यों से अनुरोध किया	रोड, जोधपुर 342001				হাব	त पते पर उन्हें वित्तीय परिस	संपत्ति प्रतिभूतिकरण व वि	निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि	नियम 2002 की घ	रा 13(2)
एजारन न उपाल्यत होने के लिए विस्तृत प्राक्रयों एजारन दूषना न दा गई हो तदस्या से अनुराव किया जाता है कि एजीएम सूचना में वर्णित अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–	एनपीए तिथि : 03-सितम्बर-2020				आर	र उसक अतगत बन ानयमा ग गोजे व्याणी(गों) / जार-व्य	क अंतगत सूचनाए जारा णी(गों) को गुनुनुनाल जार	की गई। हालांकि उन्हें बिना किसी क रग-अमर जनके दास की गई जरण व	गयवाहा क वापस गतिधाओं के अंतर्ग	कर दिया
वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।	माँग सूचना की तिथि : 21-08-2021				बक	ग, ९स ऋणा(या)/ सह—ॠ हाया देयों को परा करने के लि	लेए इस प्रकाशन सचना के	नय—समय उनके द्वारा ली गई ऋण र द्वारा सूचित किया गया है।	ସ୍ଥାଦଧାରୀ ବ ରାଗ୍ୟ	त उनका
सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः 1. 28वीं एजीएम सूचना में व्यक्त व्यवसाय पर विचार एनएसडीएल के ई−बोर्टिंग प्लेटफॉर्म	ऋण खाता सं.	रु. 84,35,396/- (रुपये चौरासी लाख पैंतीस	रु.	सम्पत्ति-1 वाणिज्यिक दुकान के भाग का सम्पूर्ण		णी(यों) / गारंटर(ओं) के नाम		प्रतिभूतित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति)		
<ol> <li>28वा एजाएम सूचना म व्यक्त व्यवसाय पर ावचार एनएसडाएल क इ-वाटिंग प्लटफाम www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जाएगा।</li> </ol>	CDAJ2TF1802100001			वाणाज्यक दुकान के भाग का सम्पूर्ण हिस्सा, ए.एम.सी. सं. 521/28	(লি-	न ने., शाखा का नाम)		का विवरण	मांग सूचना तिथि व राशि	एनपीए तिथि
<ol> <li>रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी</li> </ol>	मैसर्स पेट केयर एण्ड केनेल्स	मात्र) 18-08- 2021		(पुराना), 560/21 (नया), निकट सं.		खाः दिल्ली		गैर—कृषि संपत्तियों के सभी भाग	30 जुलाई 2021	25
एवं रविवार, 26 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।	(निदेशक श्रीमती प्रमीला मिश्रा)	तक फोरक्लोजर राशि के		9 पेट्रोल पम्प, अजन्ता सिनेमा वालों के		AN: 4010HL25815469 and गी / सह—ऋणी	1401FHL25815492	व पार्सल विवरण निम्नानुसार हैः		जून 2021
<ol> <li>इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और साथ ही एजीएम के दौरान ई- वोटिंग) वोट डालने की पात्रता के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि सोमवार, 20 सितम्बर,</li> </ol>	10, अशोक विहार, शान्ति पुरा, वैशाली	अनुसार तथा नियम एवं		बंगले वाली गली, भजनगंज, अजमेर		णा / सह—ऋणा नाडली बेगम (ऋणी)		फ्लैट नं. 905, 9वीं मंजिलॅं, उर्वशी ब्लॉक, वी38, इंद्रलोक, प्लॉट नं.	44,41,340 / — (रुपए चवालीस	2021
वाटिंग) वाट डालन का पात्रता के नियारण हतु कट आफ ताथ सामवार, 20 सितम्बर, 2021 है।	नगर, अजमेर 305001	शतौं के अनुसार भावी		(राज.) माप 21.01 वर्ग गज, अजमेर		905 जर्वशी वीअएस, इंद्र लोक	नायकखंड—	ब्लाक, पाउठ, इंद्रलाक, प्लाट न. जीएच, न्याय खंड—1, इंदिरापुरम,	लाख डकतालीस	
4. व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर वा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी		ब्याज एवं प्रभार		में स्थित।	4	1, इंदिरापुरम गाजियाबाद गा	जियाबाद— 201014	गाजियाबाद उप्र. 201010	हजार तीन सौ चालीस केवल)	
मालिकों के रजिस्टर में रहता है, को ही केवल एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग एवं एजीएम के दौरान	श्रीमती प्रमीला मिश्रा पत्नी श्री रवि दत्त मिश्रा			सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती प्रमीला	2. म	नहबूब आलम (सह-ऋणी)	52		यालास कवल)	
ई-चोटिंग की सुविधा का अधिकार प्राप्त होगा। व्यक्ति जिसने एजीएम सुचना को भेजने के बाद कंपनी का शेयर अर्जित किया है एवं कंपनी के सदस्य बने हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 20	397/28, वार्ड नं. 43, भजन गंज, अजमेर			मिश्रा पत्नी श्री रवि दत्त मिश्रा सीमा विवरण :	5	905 उर्वशी वी3एस, इंद्र लोक	नायकखंड—			
सितम्बर, 2021 को शेयर धारित किए हुए हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजते	305001			सामा विवरणः पूर्वः 28/521 का शेष भाग,		1, इदिरापुरम गाजियाबाद गा				
सितम्बर, 2021 को शेयर धारित किए हुए हैं, वे <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर एक अनुरोध भेजते हुए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल	श्री रविदत्त मिश्रा पुत्र श्री यज्ञदत्त मिश्रा			पूर्व : 26/32 किंग राज मान, पश्चिम : श्री त्रिलोक चन्द की सम्पत्ति	3.₹	साहिल बुक बाइंडर (सह—त्र जी—15, गाजीपुर दिल्ली—11(	रूणा)			
के साथ पंजीकृत रहने पर वर्तनान बूजर आईडी और पासवर्ड को प्रयोग वोट डालने के लिए किया	397/28,641-2, पेटोल पम्प नं9, भजन			उत्तर : सड़क	1	जा—15, गाजापुर विल्ला—110	1096			
जा सकता है। 5. चीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण और जिन्होंने	गंज, अजमेर 305001			दक्षिण : 28/521 का शेष भाग	-					-
रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्ताबों पर अपना बोट पहले नहीं डाला है और साथ ही ऐसा	1140 HUT 40			सम्पत्ति−2		खाः दिल्ली AN: 4010HL00383551		गैर—कृषि संपत्तियों के सभी भाग व पासल विवरण निम्नानुसार है:	22 जुलाई 2021	05 जुलाई
करने से चंचित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के	श्री प्रवीण कुमार भारद्वाज पुत्र पुरुषोत्तम देव			वाणिज्यिक दुकान के भाग का सम्पूर्ण		था ∕ सह—ऋणी		व पासल विवरण निम्नानुसार हः फ्रेन्ट नं दी२ / सी—१४ १४तीं मंसिल	35.66.320 /-	2021
योग्य होंगे। 6. सदस्यगण कृपया ध्यान दें किः	भारद्वाज, ए-332, एचबीयू नगर मेन, निकट			हिस्सा, ए.एम.सी. सं. 68 एम/24		गा/ राह—ॠणी) राजेश जैन (ऋणी)		पलैट नं. डी3 / सी–14 14वीं मंजिल प्लॉट नं. जीएच–05 / बी, सेक्ट–	(रुपए पैतीस	1111111
(क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल ई-वोटिंग के लिए उक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा	मित्तल हॉस्पिटल, अजमेर 305001			(पुराना), नया 1767/41, खसरा नं. 8184, रिलायंस फ्रेश के सामने, सात	3	ग्राउंड फ्लोर 9 हंस विहार सेव	モー13,	137 शुभकामना एडवर्ट टेक होम्स एक्सप्रेसवे नोएडा, उत्तर	लाख छियासठ हजार तीन सौ	1
बंद कर दिया जाएगा एवं रिमोट ई-चोर्टिंग की अनुमति निर्दिष्ट अवधि के बाद नहीं दी जाएगी।				8184, ारलायस फ्रेश के सामन, सात पीपली बालाजी मन्दिर, बिहारीगंज,		रोहिणी दिल्ली–110085			हजार तान सा बीस केवल)	
(ख) किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट सदस्यों द्वारा डाल दिए जाने के बाद तदुपरांत इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।				पापला बालाजा मान्दर, बिहारागज, नासिराबाद रोड, अजमेर (राज.) माप		जे टेक कम्प्यूटर्स प्रा. लि. (स		प्रदेश—201301		1
को अनुमात नहीं दी जाएगी। (ग) रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डालने वाले सदस्यों को ही केवल एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक				99.25 वर्ग गज, अजमेर में स्थित।		410 एरोस अपार्ट. 56 नेहरू प	नस दिल्ली—110019			
बोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।				सम्पत्ति के स्वामी : श्री प्रवीण कुमार	3.3	अर्चना जैन    (सह—ऋणी) ग्राउंड फ्लोर 9 हंस विहार सेव	F-12			1
(ध) जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम				भारद्वाज पुत्र श्री पुरुषोत्तम देव भारद्वाज		ग्रीउंड पलार 9 हस विहार सव रोहिणी, दिल्ली—110085	u-13,			1
सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु ऐसे प्रस्ताव पर उन्हें फिर से बोट डालने का अधिकार नहीं होगा।				सीमा विवरण :	-	CONTRACTOR DE LA CARACTERIA DE CONTRACTOR DE				10 10 10 10 10
बाट डालन का आधकार नहा हागा। सूचना से संदर्भित संबंधित कागजात सदर्स्यों की जाँच के लिए इलेक्टॉनिक माध्यम से उपलब्ध है।				पूर्व : सी.आरडब्ल्यू.डी. की भूमि जन्मे जन्म		खाः दिल्ली		गैर—कृषि संपत्तियों के सभी भाग	22 जुलाई 2021	02 जुलाई
सूचना से सदामत संबाधत कागजात सदस्या का जांच के लिए इलक्ट्रीानक माध्यम से उपलब्ध हो सदस्यगण इस विषय में संबंधित ईमेल में "जाँच के लिए अनुरोध" का उल्लेख करते हुए info@bagnetwork.in				उसके पश्चात नासिराबाद रोड पश्चिम : अना सागर एस्केप चैनल		AN: 4010HL25919820 ज्णी∕सह—ऋणी		व पार्सल विवरण निम्नानुसार है: फ्लैट नं. 1604, 16वीं मंजिल	40,03,562/-	जुलाइ 2021
पर कंपनी को लिख सकते हैं।				पश्चिमः अना सागर एस्कप चनल उत्तरः श्री हरीश चन्द जी की सम्पत्ति		जा / सह—ऋणा सुरेश खुराना (ऋणी)		(तकनीकी रूप से 15वीं मंजिल)	(रुपए चालीस	
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग/ई-वोटिंग के संबंध में कोई पूछताछ/मसला/शिकायत है, तो कंपनी	एनपीए तिथि : 04-जुलाई-2021			दक्षिण : श्रीराम मोजैक टाइल्स		फ्लैट नं. 907 सक्षम अपार्टमेंट		टॉवर—1, सेक्टर—73 टूडेस	लाख तीन	
के पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय में श्री राजीव पराशर, कंपनी सचिव-बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड को लिखते हुए कंपनी को संबोधित किया जा सकता है या info@begnetwork.in	माँग सूचना की तिथि : 21-08-2021			and a second second		40 बी सेक्ट 10 द्वारका नई दि	ल्ली—110075	कालीडोरा हरियाणा गुड़ंगांव	हजार पांच सौ बासठ केवल)	1
माडियो लिमिटेड की लिखते हुए कंपनी की संबाधित कियों जो सकती है यो info@bagnetwork.in पर ई–मेल कर सकते हैं यो 120 4602424 पर कॉल कर सकते हैं।	उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त	कर्जदारों. सह-कर्जदा	रों तथा/अथवा	जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो)	2.3	अनुपम कलर लैब (सह—🤊	स्टणी)	गुड़गांव, हरियाणा 122001	1110 0400	
एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जाँच	को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60					(इसके मालिक / प्राधिकृत ह	स्ताक्षरी / प्रबंध			1
की सुविधा कंपनी के सदस्यों को प्रदान करने हेतु मेसर्स बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, अभ्यासरत	को इस सूचना के प्रकाशन को तिथि से ठें देयताओं का भुगतान करने के लिए कहा					निदेशक के द्वारा) सी–707, २				
कंपनी सचिव, नई दिछी (सदस्यता सं. एफसीएस 4816 एवं सीओपी सं. 3222) को निदेशक मंडल द्वारा स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।						एक्स. सेक्ट 7 द्वारका नई दित शीतल के (सह—ॠण				
यदि आपको रिमोट ई–वोर्टिंग (एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान) के संबंध में कोई पूछताछ/शिकायत	तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन					रातिल क (सह—ॠ• फ्लैट नं. 907 सक्षम अपार्टमेंट				1
है, तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध अक्सर	के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं व					40 बी सेक्ट 10 द्वारका नई दि				
पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का संदर्भ ले	इस सूचना की तिथि की 60 दिनों की सम				राह	कदम सचना की सहायक से	ावा के लिए लिया जा रहा ह	। है। उक्त ऋणी और / या सह—ऋणियों,	/ गारंटरों को दन्म	संचना के
सकते हैं या टोल-फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री सरिता मोते, सहायक प्रबंधक-एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in	कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की				प्रक	जशन की तिथि से 60 दिनों वे	े भीतर भावी ब्याज के सहि	त बकाया का भुगतान करने की सलाह	दी जाती है, असफल	न होने पर
सुत्रा सारता मात, सहायक प्रबंधक-एनएसडाएल को लिदिष्ट इमल आइडा evoting@∩sdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।	किसी भी प्रतिभूत आस्ति को बिक्री, पट्टे	या अन्यथा विधि से प्र	तिभूत लेनदार	की पूर्व लिखित सहमति के बिना	(ৰত	जाज फाइनेंस लिमिटेड के पा	स उपलब्ध किसी अन्य अधि	त बकाया का भुगतान करने की सलाह वेकार के पूर्वाग्रह के बिना) प्रतिभूति परिर प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण और प्रतिभूति	गंपत्तियों / गिरवी स	ांपत्ति का
रिरेशक प्रंतल के आदेशानमा	हस्तान्तरित नहीं कर संकेगा।		U.	<b>%</b>	40	जा लेने के लिए आगे की कार	यवाही वित्तीय परिसंपत्ति ! जन्मज की जन्मजी !	प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण और प्रतिभूति	हित प्रवर्तन अधिनि	यम 2002
कृते बी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड	स्थान : जयपुर			ह./- प्राधिकृत अधिकारी	का	धारा 13(4) के प्रावधानों के अ ल नामित पार्टियों को जक्त	गुसार का जाएगा। वर्णित संप्रत्नियों में नीव्यजी	पार्टी हित तैयार न करने की सलाह व	ी जाती है। जिन्म	र ततात्न
श्थानः नोएडा <del>राजीव प्रगण</del>	तिथि : 04.09.2021		शीमम नि	ह./ प्रावयुग्त जावयगत गटी युनियन फाइनेंस लिमिटेड	फाइ	इनेंस लिमिटेड का प्रभार है।		THE PARTY AND A		1 4919
तेथि : 03.09.2021 कंपनी सचिव	1.1.9 . 04.07.2021		MICH 16	ज भूगपण काइगत गणानटड			.09.2021 मैसर्स बजाज	ज फाइनेंस लिमिटेड के लिए (विनय र	नोबती) प्राधिकत अ	अधिकारी

लिए प्रतिग 03.0 सरप जारी सरप	कर्जदार∕ सह–कर्जदार ज भूतिकरण एवं पुनर्निर्माण औ 9.2021 को अनर्जक आरित त नसी अधिनियम की धारा 13 1 की गई हैं और ये सूचनाएँ	वे वर्णित अनुसूचित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और मानती बने हैं। आपके द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप आपका र प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षिप्त में सरफासी 3 वर्गीकृत किया गया है। हम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिम् (13) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी दर्शाती हैं कि आपने आपको संस्वीकृत विभिन्न ऋणों के मुगतान क 2) के प्रावधानों और प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नि गया है:	ऋण खाता वित्तीय आस्तियों के धिनियम) के प्रावधानों के तहत Iटेड ने आपके द्वारा दिए पते पर I उक्त सूचनाएँ 03.09.2021 को में चूक है। इसलिए, यह प्रकाशन
	खाते, कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) के नाम व पते	प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिमूति का विवरण	मांग सूचना की तारीख को कुल बकाया और आगे की ब्याज एवं अन्य व्यय (रू. में)
1.	अमित कुमार शर्मा, पवन कुमार शर्मा	प्लॉट नं. 64 व 65, बालाजी नगर प्रथम बस्सी स्कीम में, गाँव बस्सी, तहसील बस्सी, आगरा रोड, जयपुर जयपुर, राजस्थान–303301	ন্থ. 9,26,106
2.	मान सिंह कालरावाल, ओमी देवी बैरवा	प्लॉट नं. सी–20 पर मकान, आशा विहार स्कीम गोविंदपुरा रोपादा, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान–303012	<b>ক. 7,10,484</b>
3.	महेन्द्र कुमार विजय, सुनीता पत्नी महेन्द्र	प्लॉट नं. बी—19 पर मकान, शुभम विहार स्कीम, ग्राम विजयपुरा, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान—302031	ক. 5,02,118
4.	गजानंद प्रजापत, मधु प्रजापत	मकान नं. 110, प्लॉट नं. 52, गोल्डन टॉउन स्कीम में, रामगढ़ रोड, जयपुर, जयपुर राजस्थान–302027	<b>ক. 3,91,43</b> 7
5.	जय नारायण, कांतिश्री, देवेन्द्र कुमार, अनुज कुमार जाटव	प्लॉट नं. बी–29, अशोक विहार की स्कीम में, गोनेर रोड जयपुर, जयपुर राजस्थान–302029	ক. 9,02,675
6.	आशुतोष पांडे, रिपल पांडे	पलैट नं. 533, ब्लॉक–एच, घर आंगन, 5वाँ तल, निकट टर्मीनल मार्केट, सांगानेर, जयपुर राजस्थान–302029	ন্থ, 2,46,207